

एन को 15

हाइ जेजा

व आयोग स्थित व मामले
भदालत ने अन्नामुक
मिटीवी दिनकरन और
योगी मल्लिकार्जुन को
ए न्यायिक स्थिरता में
वशेष न्यायाधीश पुनम
ई ने दिनकरन और
1 15 मई तक के लिए
1 है।

शा या कि उन्हें आयोगी
गए स्थिरता की जरूरत
अदालत को बताया कि
कई गवाहों से पूछताछ
व अभी भी चल रही है।
स्थिरता अवाधि समाप्त
वार को अदालत में पेश

लाख

गाराया

ई सख्त

य बर्बाद करने पर
1 ट्रस्ट पर कार्रवाई
नल अदालतों में 64
स्थित किए

कारं दायर कर रहा था।
पुन नायजमी जाहिर की
मुग़म कोर्ट के जजों के
ए यहाँ तक कि उन्होंने
1 भी लगाए। दहिया ने
जिस्ट्री पर भी आरोप



Dabur India Limited

Regd. Office: B-7, Anand Ash Road, New Delhi - 110 002
CIN: L24230DL1975PLC007904, Tel No. 011-23253448,
Fax No. 011-23222551 Website: www.dabur.com
e-mail: corpcomm@dabur.com



Only Purity
No preservatives



Extract of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2017

(Amount in Rs.Cr.)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended (31/03/2017)	Current year ended (31/03/2017)	Corresponding Quarter ended (31/03/2016)
1	Total income from operations	1,914.68	7,701.44	2010.06
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	431.40	1,510.40	420.10
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	431.40	1,510.40	420.10
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	333.73	1,280.06	333.29
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax, non controlling interest and share of profit/(loss) of associates & joint venture (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	333.11	1,276.94	331.48
6	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax, non controlling interest and share of profit/(loss) of associates & joint venture) and Other Comprehensive Income (after tax)	307.59	1,126.67	317.89
7	Paid-up equity share capital (Face Value of Re 1 Each)	176.15	176.15	175.91
8	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	4,671.24	3,994.70	1,887.14
9	Earnings per share (of Re 1/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised):			
	(a) Basic	1.89	7.25	1.88
	(b) Diluted	1.88	7.21	1.87

Notes:

1. Additional information on standalone financial results is as follows :-

Particulars	Quarter ended (31/03/2017)	Current year ended (31/03/2017)	Corresponding Quarter ended (31/03/2016)
Total income from operations	1,434.80	5,369.84	1,432.97
Profit before tax	392.23	1,294.35	369.19
Profit after tax	302.23	998.33	287.14

2. Results for the quarter and year ended 31st March, 2017 are in compliance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) notified by Ministry of Corporate Affairs. Accordingly, results for the corresponding quarter and year ended 31st March, 2016 have been restated to comply with Ind AS to make those comparable.

3. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2017 filed with the Stock Exchanges under Regulation 31 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2017 are available on the Stock Exchanges websites (www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Company's website (www.dabur.com).

Place : New Delhi
Date : 1st May, 2017

By order of the Board
For Dabur India Limited
(Dr. Anand C. Burman)
Chairman
DIN : 00056216